

# प्रेस नोट थाना कैण्ट गोरखपुर दिनांक 08.08.2022

## **दिनांक 05.08.2022 को अपहरण करने वाले 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अं0सं0 574/2022 धारा 323/364/504/506/120बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. विकेश शुक्ला पुत्र गिरजेश शुक्ला निवासी मोहल्ला पालन कुण्डा गौरीबाजार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया हालपता- उच्चा टोला झरना टोला थाना शाहपुर गोरखपुर 2. अंशुमान गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी म0नं0- 57 आवास विकास कालोनी कूड़ाघाट थाना कैण्ट गोरखपुर 3. शिवम सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी 214 आवास विकास कालोनी थाना कैण्ट गोरखपुर को आज दिनांक 08.08.2022 समय करीब 14.05 बजे प्रदूषण चौराहा सिंघडिया से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

### **संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरण:-**

दिनांक 12.07.22 को सिंघडिया माडलशाप पर मारपीट हुयी थी उसमें मु0अं0सं0 491/22 धारा 147/148/323/352/504/506/308 भादवि0 कायम हुआ था। जिसमें अभियुक्त ज्वाला निषाद पुत्र लल्लन निषाद निवासी सिंघडिया थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दिनांक 02.08.22 को जमानत पर रिहा होने पर ज्वाला निषाद को दिनांक 05/08/22 को सांयकाल में जिम जाने वाले रास्ते सिंघडिया से 04 लड़के असलहे के साथ गाड़ी में बैठाकर उठा ले गये थे। पुलिस को जानकारी होने पर उन लड़को के घरो पर दबिश दी जाने लगी तब इन लोगो ने ज्वाला निषाद को सहारा स्टेट के पास छोड़ दिया। ज्वाला निषाद की तहरीर पर दिनांक 05/08/22 को मु0अं0सं0- 574/22 धारा 323/364/504/506/120बी भादवि0 बनाम- 1. सचिन यादव पुत्र पुंजा प्रसाद यादव निवासी गिरधरगंज थाना कैण्ट गोरखपुर 2. विकेश शुक्ला पुत्र अज्ञात व 3. शक्तिधर सिंह पुत्र अज्ञात (घटना के षडयंत्र में शामिल) तथा 02 अज्ञात लोग के विरुद्ध मुकदमा कायम कर पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जाती रही मुखबीर की सुचना पर आज दिनांक 08.08.2022 को समय **14.05 बजे** पर प्रदूषण चौराहा सिंघडिया से घटना में शामिल अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ पर इन्होंने बताया की घटना में 1. सचिन यादव पुत्र गुंजा प्रसाद यादव निवासी गिरधरगंज कूड़ाघाट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर 2. विकेश शुक्ला पुत्र गिरजेश शुक्ला निवासी मोहल्ला पालन कुण्डा गौरीबाजार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया हालपता- उच्चा टोला झरना टोला थाना शाहपुर गोरखपुर 3. अंशुमान गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी म0नं0- 57 आवास विकास कालोनी कूड़ाघाट थाना कैण्ट गोरखपुर 4. शिवम सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी 214 आवास विकास कालोनी थाना कैण्ट गोरखपुर के द्वारा सचिन यादव की चार पहिया गाड़ी UP53DX7009 के साथ घटना कारित की गयी। सचिन यादव ही असलहा लेकर आया था और असलहा उसके ही पास है। घटना करने का कारण यह है कि 12/07/22 को माडल शाप पर मार पीट में सचिन यादव के सर पर एंव अंगुली में चोट लगी थी जिस कारण सचिन यादव परेशान था एंव शराब का नशा करता है शराब के नशे में वह बदला लेना चाहता था। उसी ने हम सभी लोगो को बुलाया की ज्वाला जेल से छुट कर आया है इसको सबक सिखाना है। ज्वाला निषाद जब जेल से छुटा था तो जेल से रिहा होने पर ज्वाला निषाद के हाथ पर रिहाई की मोहर लगी हुई थी ह्वाटसएप्प के स्टेटस पर हाथ के फोटो का स्टेटस लगाकर लिखा था कि जेल से छुटकर आया हूँ अब जो होगा देखा जायेगा। उसके स्टेटस को देखकर सचिन बदला लेने के लिए परेशान था। हम लोगो का दोस्त होने के कारण हम लोग भी साथ हो गये थे। हम लोग 05/08/22 को जिम के पास से ज्वाला को गाड़ी में उठाकर ले गये लेकिन तुरंत पुलिस की घेराबन्दी तथा अपने आप को घिरता देख हमलोग पकड़े जाने के डर से ज्वाला को तुरंत सहारा स्टेट के पास छोड़ दिये। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1. विकेश शुक्ला पुत्र गिरजेश शुक्ला निवासी मोहल्ला पालन कुण्डा गौरीबाजार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया हालपता- उच्चा टोला झरना टोला थाना शाहपुर गोरखपुर

2. अंशुमान गौड़ पुत्र अनिल गौड़ निवासी म0नं0- 57 आवास विकास कालोनी कूड़ाघाट थाना कैण्ट गोरखपुर
3. शिवम सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी 214 आवास विकास कालोनी थाना कैण्ट गोरखपुर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अं0सं0 574/2022 धारा 323/364/504/506/120बी भादवि

### गिरफ्तारी का स्थान /समय:-

प्रदूषण चौराहा सिंघडिया /दिनांक 08.08.22 समय करीब 14.05 बजे

### गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अमित चौधरी चौकी प्रभारी ई0कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 अखिलेश कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 वैभव श्रीवास्तव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
5. का0 अंकित कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
6. का0 राकेश सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर